

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 386]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 अगस्त 2014—भाद्र 6, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

शुद्धि-पत्र

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2014

क्र. एफ-70-70-2014-तीन-1371.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), क्रमांक 332, दिनांक 1 अगस्त 2014 में प्रकाशित किये गये ग्राम पंचायत के पंच पद के अभ्यर्थियों द्वारा नामनिर्देशन-पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाला घोषणा-पत्र के आदेश में नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में वर्णित उन शब्दों के स्थान पर सारणी के कॉलम (2) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, को सारणी के कॉलम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टियों में दिये गये शब्द पढ़े जाएं :—

सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द (1)	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिसमें वे शब्द, आए हैं. (2)		शब्द, जो कि पढ़े जाएं (3)
	पृष्ठ	पंक्तियां	
ग्राम पंचायत के पंच के पद अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाला घोषणा-पत्र.	663	आदेश के विषय से संबंधित पंक्तियां	ग्राम पंचायत के पंच पद के अभ्यर्थियों द्वारा नामनिर्देशन-पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाला घोषणा-पत्र.
इसकी	663	पैरा 2 की कंडिका (1) की द्वितीय पंक्ति	उसकी
प्रमाणिक	664	पैरा 2 की कंडिका (8) की प्रथम पंक्ति	प्रमाणित

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.